



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1977/भाद्र 1, 1899

No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1977/BHADRA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August 1977

**G.S.R. 588(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourteenth Amendment Regulations, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, against the head 'Rajasthan,' for the entries, namely:—

- |   |    |
|---|----|
| (i) Commissioner-cum-Secretaries/ex-officio Secretaries to Government.                        | 11 |
| (ii) Secretaries/Special Secretaries to Government  | 9  |
| (iii) Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government | 1  |

the following entries shall be substituted, namely —

(i) Commissioner-cum-Secretaries/ex-officio Secretaries to Government	10
(ii) Commissioner and Secretary-cum-ex-officio Chief Electoral Officer	1
(iii) Secretaries Special Secretaries to Government	10

[No 11031/30/77-AIS(II)-A]

### गृह मंत्रालय

### (कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1977

सा० का०नि० 588(अ) — भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा सर्वग संख्या का नियतन अधिह्वा संशोधन विनियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में “राजस्थान” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर :—

(i) आयुक्त सह सचिव पदेन सचिव	11
(ii) सचिव/विशेष सचिव	9
(iii) मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा निदेशक निर्वाचन तथा पदेन सचिव	1

निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी :—

(i) आयुक्त सह सचिव पदेन सचिव	10
(ii) आयुक्त और सचिव सह पदेन मुख्य निर्वाचक अधिकारी	1
(iii) सचिव/विशेष सचिव	10

[संख्या 11031/30 77-अ० भा० से० (II)-क]

**G.S.R. 589(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Reforms (Pay) Rules 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1 (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In Schedule III A Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments in the Table against the entry 'Rajasthan' occurring in the first column and corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

(1) Commissioner and Secretary-Cum-Ex-officio Chief Electoral Officer	Rs 2500-125/2-2750
---	--------------------

(b) In Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table against 'Rajasthan' occurring in the first column and the entry "Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government" occurring in the second column, shall be deleted.

[No 11031/30/77-AIS(II)-B]

K L NEGI, Under Secy

सा० का० नि० 589(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार "राजस्थान" सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 (ए) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची-III-क में—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद सारणी में "राजस्थान" शीर्षक के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

"आयुक्त और सचिव पदेन मुख्य निर्वाचक अधिकारी" रु० 2500-125/2-2750

(बी) अनुसूची-III-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद तथा विशेष वेतनमान के अतिरिक्त वेतन वाले पद सारणी में "राजस्थान" शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त और सचिव पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी" को हटा दिया जाये ।

[स० 11031/30/77-अ० भा० से० (II)-ख]

के० एल० नेगी, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

